

**JAY BHARAT MARUTI LIMITED**

**Corporate Office :**

Plot No. 9, Institutional Area,  
Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)  
T : +91 124 4674500, 4674550  
F : +91 124 4674599  
W : www.jbmgroup.com



**Ref. No. JBML/SE/Q2/19-20/89**

**Date: 17<sup>th</sup> July, 2019**

BSE Limited  
Phiroz Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001

The National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No. C/1, G- Block,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai – 400051.

Scrip Code: 520066

NSE Symbol: JAYBARMARU

**Sub: Submission of Newspapers Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (Hindi) in Delhi edition and Business Standard (English) in Delhi edition dated 17th July, 2019 for the publication of unaudited financial results of the Company (Standalone & Consolidated) for the quarter ended 30th June, 2019 approved at the meeting of Board of Directors held on 16th July, 2019.

Submitted for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,  
For Jay Bharat Maruti Limited

  
(Ravi Arora)  
Company Secretary

Encl.: As above

**Works :**

**Plant I :** Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T: +91 124 4887200, F: +91 124 4887300  
**Plant II :** Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332  
**Plant III :** Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952  
**Plant IV :** Plot No. 322, Sector - 3, Phase-II, GWC, Bawal - 123 501 (Haryana) T +91 8221004201, 8221004203  
**Regd. Office :** 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T : +91 11 26427104-06. F : +91 11 26427100  
**CIN :** L29130DL1987PLC027342

Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031. Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022.

**(Notice Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002)**

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC First Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Limited) The Loans of the below mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA as per the RBI Guidelines. Amounts due by them to IDFC First Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

SR No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers	Outstanding as per 13(2) notice	Notice date	Details of secured asset
1.	12958496	Mortgage Loan	1. Sanjeev Kumar 2. Anita Sanjeev Kumar	Rs. 30,37,670.57	29/06/2019	MCF No. 500, Kila No. 9/20, Parbatia Colony-1, Village Gauchhi, Tehsil Ballabgarh, Faridabad.

You are hereby called upon to pay the amounts due to IDFC First Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc., within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings U/s 13(4) and Sec.14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC First Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Limited) Further you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring the said secured asset either by way of sale/lease or otherwise.

Date : 17.07.2019  
Place : Faridabad

Sd/-  
Authorised Officer  
IDFC First Bank Ltd  
Formerly Known as IDFC Bank Ltd

Gaurantor:

2(A) M/s Ganpati Enterprises, 94, Old Vijay Nagar Colony, Agra-5  
(B) Mr Nitin Gupta S/o Shri Ashok Kumar Gupta.  
Partner of M/s Ganpati Enterprises, 94 Ganpati Enterprises, 94 Old Vijay Nagar Colony Agra-5

Dear Sir/Madam


Notice dated 12.07.19 issued to you u/s 13(2) of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 by Corporation Bank, Agra Awas Vikas Branch Authorised Officer, was sent to you calling upon to repay the dues in your loan account/s with us at your known address. The contents of the said demand notice are being published in this newspaper. The credit facilities/loan facilities availed by you have been classified as NPA on 31.03.2019. You executed loan documents while availing the facilities and created security interest in the following asset Mortgage of All the part and parcel of the property is a House number flat no 201, 2<sup>nd</sup> floor, Ash Elegance, Old Vijay Nagar Colony, Agra measuring 379 sq mtr situated at property no 22/71 and 22 at Ashoka Elegance, Old Vijay Nagar Colony, Agra in the name of M/S Ganpati Enterprises (partner Nitin Gupta) R/O 94, old Vijay Nagar Colony, Agra sharing boundaries as in East Open to Sky, Corridor, North Open to sky, South Open to sky.

S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
1	CVPOD-01-150003 (560361000051083)	15000000/-	1,60,43,337.72/-
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>15000000/-</b>	<b>1,60,43,337.72/-</b>

Therefore, you, No.1, as Borrower, in terms of the aforesaid notice have called upon to pay the amount sum of 1,60,43,337.72 together with future interest thereon at the rate of 12.30% compounded monthly rests and cost of notice to the Bank within 60 days from the date of this publication. That on failure to comply therewith the secured creditor, shall be entitled to exercise all or any of the rights under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002.

In terms of Section 13(13) of the Act shall not transfer the secured assets aforesaid from the date of receipt of this notice.


Date : 17.07.2019 Place : Agra Authorised Officer Corporation Bank

 Our milestones are touchstones <b>JAY BHARAT MARUTI LIMITED</b> Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019 Ph: 011-26427104 Fax: 011-26427100 Website: www.jbmgroup.com CIN: L29130DL1987PLC027342					
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 <sup>th</sup> JUNE, 2019					
(Rs. in Lacs)					
Sl. No.	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED	
		Quarter Ended 30/06/2019	Quarter Ended 30/06/2018	Quarter Ended 30/06/2019	Quarter Ended 30/06/2018
		Unaudited		Unaudited	
1.	Total Income from operations	44,321.38	50,624.20	44,321.38	50,624.20
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,203.09	2,059.05	1,202.86	2,059.05
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,203.09	2,059.05	1,202.86	2,059.05
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	785.21	1,344.17	784.98	1,344.17
5.	Total Comprehensive Income for the period [ Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	807.96	1,384.16	807.73	1,384.16
6.	Equity share capital	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	39,323.40	34,941.91	39,311.33	34,941.91
8.	Earning per Share (of Rs. 5/- each) (not annualised) (For continuing and discontinued operations)-				
	a) Basic	3.63	6.21	3.63	6.21
	b) Diluted	3.63	6.21	3.63	6.21

**Note:**  
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) - www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website www.jbmgroup.com

By Order of the Board  
For JAY BHARAT MARUTI LIMITED  
Sd/-  
S. K. ARYA  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place :- Gurugram  
Dated :- 16<sup>th</sup> July, 2019

 <b>Corporation Bank</b> (A Premier Public Sector Bank)			
SALE LAST DATE & TIME OF SALE			
<b>E-Auction Sale Notice for Sale of Movable Assets under the Securitisation Security Interest (Enforcement) Rule, 2002</b> Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) which has been taken by the Authorized Officer of Corporation Bank (secured or otherwise) hereunder to Corporation Bank from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s)			
S. No.	Name of the Branch Phone Number and Email ID	Borrower's Name	
1	Palwal Branch, Mr. Priyamjeet Singh Chauhan Mob: 9971101518 Ph no. 01275-244050 Email ID: cb1245@corpbank.co.in	<b>Borrower:</b> Mr. Subhash Chand S/o Bhajanlal <b>Guarantor:</b> Mr. Ashok Kumar S/o Harkesh	Maruti G12B Regis
2	Neb Sarai Branch, Mr. Vinod Kumar Das Mob: 9643436787, Ph: 011-29535449, 29535450 Email ID: cb1688@corpbank.co.in	<b>Borrower:</b> M/s M D Metro Transit Pvt. Ltd., <b>Guarantors:</b> 1. Mr. Maninder Jha S/o B S Jha, 2. Mrs. Kavita Jha W/o Maninder Jha, 3. Mrs. Virmla Jha W/o B S Jha 4. Mrs. Sangeeta Jha W/o Dhirender Jha 5. Mr. Dhirender Jha S/o B S Jha	Tata Engin MAT4
3	Mahipalpur Branch, Mr. Amit Kumar Sinha Mob. +91-9888410812, Ph: 011-26782215, 26789015, Email: cb0624@corpbank.co.in	<b>Borrower:</b> M/s P & P Logistics <b>Partners:</b> 1). Praveen Kumar 2). Pushpa Devi	Maruti MA3E MODI
For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link: <a href="https://corpbank.com/sites">https://corpbank.com/sites</a> <a href="https://corpbank.com">https://corpbank.com</a>			
Date : 16-07-2019, Place : New Delhi			

RS (Eng.) - Page = 15, 17.7.2019

